

जनवरी में निकलेगा मेट्रो निर्माण की निविदा

Jan 01, 05:30 am

 Print

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता:

नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो लाने का मार्ग धीरे-धीरे प्रशस्त हो रहा है। जनवरी में मेट्रो निर्माण की निविदा निकालने के लिए प्राधिकरण ने पूरी तैयार कर ली है। कंसल्टेंट ने निविदा का वित्तीय व तकनीकी प्रस्ताव का ग्राफ तैयार कर प्राधिकरण को सौंप दिया है। प्राधिकरण प्रस्ताव पर अध्ययन करने के बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह तक निविदा निकाल देगा। अप्रैल से इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

प्राधिकरण ने मेट्रो निर्माण का जिम्मा निजी हाथ में सौंपने की तैयारी कर ली है। निर्माण का खर्च कैसे और किस रूप में कंपनी निकालेगी, इस पर भी अंतिम फैसला होना बाकी है। आंकलन किया जा रहा है कि मेट्रो के निर्माण करीब पांच हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्राधिकरण के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जिस कंपनी को निर्माण का जिम्मा दिया जाएगा उसे स्टेशन के पास वाणिज्यिक भूखंड भी दिया जा सकता है। निर्माण एजेंसी बिड सिस्टम से चुनी जाएगी। जिसका बजट कम होगा उसके हाथ में मेट्रो निर्माण की जिम्मेदारी दी जा सकती है। निविदा जारी होने के बाद निर्माण की प्रक्रिया पूरी करने में डेढ़ से दो माह का समय लग सकता है। यानि अप्रैल तक ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस पूरे ट्रैक की लंबाई 29 किमी होगी। नोएडा के सिटी सेंटर से होते हुए मेट्रो सेक्टर 49, 50, एक्सप्रेस-वे के किनारे से होकर परी चौक व नॉलेज पार्क चार विप्रो कंपनी तक पहुंचेगी। विप्रो से बौड़ाकी तक मेट्रो जाएगी। मेट्रो के रूट में कुल 22 स्टेशन होंगे। इसमें सात स्टेशन ग्रेटर नोएडा में होंगे।

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति